

VRL/SEC/EXCHANGE

18.02.2022

National Stock Exchange of India Ltd. 5th Floor, Exchange Plaza Bandra (E), Mumbai- 400 051

BSE Limited 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** Mumbai

Script Code: 526953

Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of notice for issue of duplicate shares in lieu of loss of shares.

Kindly take it on your record.

Yours faithfully, for VENUS REMEDIES LIMITED

(Company Secretary)

VENUS REMEDIES LIMITED

Corporate Office:

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website: www.venusremedies.com

www.vmrcindia.com

email: info@venusremedies.com CIN No.: L24232CH1989PLC009705

51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India Tel.: +91-172-3933094, 3933090, 2565577, Fax: +91-172-2565566

Hill Top Industrial Estate, Jharmairi EPIP, Phase-I, (Extn.), Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India Tel.: +91-1795-302100, 302101, 302107, Fax: +91-1795-271272

VENUS PHARMA GmbH AM Bahnhof 1-3, D-59368, Werne, Germany

▼ 4.7 %

कंपनियों को इस साल

गर्मी में मांग सामान्य

होने की उम्मीद

तीसरी तिमाही के

दौरान १२ कंज्यूमर

ड्यूरेबल कंपनियों

की एकीकृत शुद्ध

बिक्री महज 11.2

■ पिछली चार तिमाहियों

के दौरान बिक्री में

सालाना आधार पर

25 से 78 फीसदी की

फीसदी बढ़ी

वृद्धि हुई थी

एबीबी द्वारा रणनीतिक बदलाव साझेदार चयनित

₹ 564.3 पिछला बंद भाव

नेख्ते इंडिया का मुनाफा


एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को बताया कि 31 दिसंबर 2021 को तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 20 फीसदी घटकर 386.66 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 483.31 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि बताया कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 8.9 फीसदी बढ़कर

अशोक लीलैंड की नजर बाजार हिस्सेदारी पर

हिंदुजा समृह की कंपनी अशोक लीलैंड इस साल वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में मजबूत वापसी का प्रयास करते हुए मध्यवर्ती वाणिज्यिक वाहन (आईसीवी) क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने गरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी मॉड्यूलर एवीटीआर श्रेणी की बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। चेन्नई की कंपनी 2022-23 में वाणिज्यिक वाहन बाजार में अपनी हिस्सेदारी 30 फीसदी के पार ले जाने का प्रयास करेगी। कंपनी ने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार और आपूर्ति शृंखला में सुधार से कंपनी वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में अपनी हिस्सेदारी बढा सकेगी।

मारुति ने विवकलीज के साथ साझेदारी की

उसने अपने वाहन सदस्यता कार्यक्रम- सबस्क्राइब के लिए महिंद्रा फाइनैंसस द्वारा संचालित क्विकलीज के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी वाहनों को किराये पर लिया जा सकेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने अपने सबस्क्रिप्शन कार्यक्रम का विस्तार करते हुए कोलकाता को भी इसमें शामिल किया है। कंपनी ने जुलाई 2020 में अपना सबस्क्राइब कार्यक्रम शुरू किया था।



टाटा मोटर्स

.⁵²⁰ अगली पीढ़ी की स्वचालित ड्राइविंग प्रणाली विकसित

1,631.30 _1.600

₹ 1,631.3 पिछला बंद भाव

संक्षेप में

20 फीसदी घटा

3,739.32 करोड़ रुपये हो गई।

प्रमुख कार विनिर्माता मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने गुरुवार को कहा कि के तहत क्विकलीज की मदद से मारुति सुजूकी के

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में नरमी

तीसरी तिमाही के दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार को ओमीक्रोन का लगा झटका

शर्लीन डिसजा

मुंबई, 17 फरवरी

♦ ज्यूमर ड्यूरेबल्स उद्योग के लिए वित्ते वर्ष 2021-22 को पहली छमाही काफी दमदार रही थी लेकिन उसके विपरीत तीसरी तिमाही के दौरान ओमीक्रोन के प्रकोप के कारण बाजार में नरमी दिखी। तिमाही के कोरोनावायरस वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के कारण स्टोरों में लोगों की आवक प्रभावित हुई जिससे बिक्री पर असर पड़ा।

गोदरेज अप्लायंसेज के प्रमुख एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'तीसरी तिमाही के दौरान ओमीक्रोन के कारण उद्योग की मात्रात्मक बिक्री में 25 से 30 फीसदी का संकुचन दिखा। हालांकि मूल्य के लिहाज से बिक्री के मोर्चे पर मूल्य वृद्धि से कुछ राहत मिली।' नंदी ने कहा कि मूल्य के लिहाज से बिक्री में 15 से 18 फीसदी का संचकन दिखा।

कैपिटालाइन के आंकड़ों के अनसार, 12 कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की एकीकृत शुद्ध बिक्री

तीसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 11.2 फीसदी बढकर 13.620 करोड़ रुपये रह गई। जबकि पिछली चार तिमाहियों के दौरान बिक्री में सालाना आधार पर 25 से 78 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। तीन कंपनियों के राजस्व में संकुचन दिखा, चार कंपनियों के राजस्व में एकल अंक में विद्ध हुई और पांच कंपनियों ने 16 से 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

तिमाही के दौरान इन कंपनियों के एकीकृत ब्याज, अवमूल्यन एवं कर

पूर्व लाभ (पीबीआईडीटी) में 18.7 फीसदी का संकचन दिखा जो करीब पांच तिमाहियों के दौरान पहली गिरावट रही। वास्तव में तिमाही के दौरान आठ कंपनियों के पीबीआईडीटी में गिरावट दर्ज की गई। तीसरी तिमाही के दौरान एकीकृत शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 29 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जो कम से कम पिछली पांच तिमाहियों में पहली गिरावट है।

वोल्टास ने वित्तीय नतीजे की

घोषणा के बाद कहा था. 'तिमाही के दौरान विभिन्न कारोबारी श्रेणियों में मिश्रित परिणाम दिखे। हालांकि सीजन के बाद कमजोर मांग और तीसरी लहर के शुरुआती संकेतों का प्रभाव कूलिंग उत्पाद श्रेणी में कारोबार और उपभोक्ता धारणा पर पड़ा।'

हैवेल्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल राय गुप्ता ने निवेशकों से बातचीत में कहा कि तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी के राजस्व में 12-15 फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन मात्रात्मक बिक्री स्थिर रही।

ऑफलाइन खुदरा शृंखला विजय सेल्स ने कहा कि तिमाही के दौरान उसका राजस्व स्थर रहा लेकिन मात्रात्मक बिक्री प्रभावित हुई। कं पनी के एमडी नीलेश गुप्ता ने कहा, 'दाम बढ़ने के कारण मूल्य के लिहाज से हमारी बिक्री प्रभावित नहीं हुई लेकिन तिमाही के दौरान निश्चित तौर पर हमारी मात्रात्मक बिक्री पर असर पडा।'

नंदी ने उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही में अटकी हुई मांग की वापसी होगी जिससे एयर कंडिशनर एवे रेफ्रीजरेटर जैसे उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी।

मुंबई, 17 फरवरी

भारतीय आईटी कंपनियां करेंगी 3.6 लाख नियुक्ति

बीएस संवाददाता मुंबई, 17 फरवरी

अनअर्थडनसाइट द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, आईटी सेवा उद्योग में वित्त वर्ष 2022 में करीब 360,000 फ्रेशरों की नियुक्तियां की जाएंगी। 'आईटी इंडस्ट्री क्यू3 ऐंड एफवाई22 इनसाइट्स फॉरकास्ट' रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में 3,50,000-3,60,000 फ्रेशरों को नियुक्त किए जाने की संभावना है, जो कुल कर्मियों में आईटी सेवा कंपनियों द्वारा फ्रेशरों के 14-18 प्रतिशत योगदान में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि है।

प्रतिभाओं को अपने साथ जोडे रखने के लिए कंपनियों ने वेतन वृद्धि, शेयर विकल्प, प्रमोशन. दीर्घावधि इंसेंटिव, कौशल आधारित वेतन अपस्किलिंग/रीस्किलिंग प्रशिक्षण आदि जैसे उपायों की घोषणा की है। ये एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग तिमाहियों में अपनाए जा रहे उपाय हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टियर-1 और टियर-2 आईटी प्रतिस्पर्धियों द्वारा 8-12 प्रतिशत की औसत वेतन वृद्धि के दर्ज कर रही हैं।'

कैपजेमिनाई को भारत से ताकत

साथ साथ प्रतिभाओं को जोडे रखने के लिए कर्मचारी पदोन्नति के तौर पर 15-20 प्रतिशत की वद्धि जैसे उपाय भी अपनाए गए हैं। कंपनी अपनी एट्रीशन दर पिछली तिमाही के 19.5 प्रतिशत के मुकाबले इस तिमाही में 22.3 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफल रही। यह वृद्धि सभी उद्योगों में नए जमाने के डिजिटल कौशल के लिए तेजी से बढ़ रही मांग की वजह से संभव हुई है।

एट्रीशन यानी कर्मचारियों को जोड़े रखने की दर कंपनियों के लिए प्रमुख चुनौती बनी हुई है। कंपनियां इस चुनौती का लगातार सामना कर रही हैं।

अनअर्थसाइट के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी गौरव वास् के अनुसार, 'जहां उद्योग का पारिश्रमिक बिल ऊपरी रुझान में है, वहीं एट्रीशन स्तर को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है और यह एक अन्य तिमाही तक बरकरार रहने की आशंका है। तकनीकी तौर पर, प्रमुख आईटी कंपनियां अपने क्लाउड एवं उत्पाद प्लेटफॉर्म व्यवसाय में अच्छी वृद्धि

इलास्टिकरन ने जुटाए 33 करोड़ डॉलर

दीपशेखर चौधरी बेंगलूरु, 17 फरवरी

बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इलास्टिकरन ने सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और गोल्डमैन सैक्स ऐसेट मैनेजमेंट के नेतृत्व में ई-शृंखला वित्त पोषण दौर के तहत 33 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। ताजा दौर के तहत कंपनी का मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर रहा। पिछले दौर यानी डी-शृंखला के तहत अप्रैल में कंपनी का मूल्यांकन 40 करोड़ डॉलर था।

ताजा दौर के वित्त पोषण में सिमेरा और इनोवेन के अलावा दीर्घाविध निवेशक प्रोसस वेंचर्स की भी भागीदारी रही। इस

निवेश से कंपनी को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये 10 लाख से अधिक किराना स्टोरों को बड़े उपभोक्ता ब्रांड और फूड ब्रांड तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

इलास्टिकरन के सह-संस्थापक संदीप देशमुख ने कहा, 'हमें हमारे कारोबार के परिवर्तनकारी प्रभाव को लेकर गर्व है जिससे ग्रामीण दुकानदारों और उपभोक्ताओं को देश भर में अपने पहुंच का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है। महामारी के दौरान हमारे दमदार लॉजिस्टिक और चैनल ढांचे ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की।' एलास्टिकरन की स्थापना 2016 में संदीप देशमुख, क्षितिज बंसल और सौरभ निगम ने की थी।

एवं उपयोगकर्ता जनत

ग्राहकों / मर्चे न्ट्स तथा

के लिए सूचना

उपयोगकर्ता जनता को एतदद्वारा सचित

किया जाता है कि RBI ने भुगतान एवं

निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के

अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

करते हुए कम्पनी को पीपीआई जारी

करने एवं प्रचालन के लिए जारी किया

गया पाधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) का

नवीनीकरण नहीं किया है और तदनुसार

कम्पनी की भुगतान प्रणाली प्रचालन

1) ग्राहक इस सूचना के प्रकाशन की

तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर

कम्पनी को अनरोध भेजकर अपने स्वयं के

बैंक खाते में वनटाइम क्रेडिट द्वारा अपने

वालेट में पदी देय राशि शेष वापिस पाप्त

कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की

तिथि से 10 दिनों के भीतर रिफंड कर

२) रि.डेम्पशन के लिए हस्ताक्षरित अनुरोध

पत्र भौतिक पारूप में या ई—मेल के

माध्यम से इसकी स्कैन कॉपी सुश्री

जीना थॉमस, सीएफओ, मुथूट वेहिकल

एंड एसेट फाईनान्स लि.. पाँचवां एवं छठी

मंज़िल, मिधुन टॉवर्स, के. पी. वॉलन

geenaajith@muthootgroup.com पर भेजकर जमा किया जा सकता है।

कडवंथरा. कोची 682020

7593864403, ई — मे लः

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

मुथुट वेहिकल एंड

एसेट फाईनान्स लि.

31—12—2021 से समाप्त हो गया है

इस संबंध में

दिया जाएगा।

स्थानः ईर्नाकुलम

तिथि:18.02.2022

सोशल ई-कॉमर्स स्टार्टअप डीलशेयर ने ई-शुंखला के वित्त

इन्वेस्टमेंट (एडीआईए) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई से 1.7 अरब डॉलर के मुल्यांकन पर 4.5 करोड डॉलर जुटाए हैं। इससे पहले कंपनी ने 16.5 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण के साथ ई-दौर के समाप्त होने की घोषणा की थी। कंपनी अब तक कुल 39.3 करोड़ डॉलर जुटा चुकी है। इस रकम का उपयोग विस्तार पर किया जाएगा। *बीएस*

एज्जात का मानना है कि प्रतिभाओं के लिए तलाश के लिए वाकई में लोगों को एक खास तरीके से जोड़ने जरूरत है। उनका कहना है कि भारत उसके परिचालन का हमेशा से अभिन्न हिस्सा रहा है और यहां उसके करीब 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करते हैं। कैपजेमिनाई के समृह मुख्य कार्याधिकारी ऐमन एज्जात अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय टीम के सदस्य भी ग्राहक प्रबंधन के संदर्भ में सक्रियता के साथ अपना अग्रणी योगदान दें।

पेरिस में मुख्यालय वाली आईटी

सेवा प्रदाता कैपजेमिनाई के

वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी ऐमन

एज्जात ने नैसकॉम टेक्नोलॉजी ऐंड लीडरशिप फोरम 2022 के मौजदा 30वें संस्करण के एक सत्र में कहा, 'हम भारत को अपने ग्राहकों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते देख रहे हैं। कुछ साल पहले, भारत में हमारा एक भी अकाउंट एक्जीक्युटिव नहीं था, लेकिन आज हम इस संख्या को बढ़ाकर 100 पर पहुंचाने में सफल रहे हैं।



हिस्सा रहा है और यहां उसके करीब ५० प्रतिशत कर्मचारी काम करते हैं दिसंबर २०२१ के अंत तक कंपनी के कुल

भारत कैपजेमिनाई के

परिचालन का अभिन्न

कर्मियों की संख्या 324,700 थी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल २, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमॉषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.01.2021) की अवधि तक NPA खातों & 30.06.2021 की अवधि तक नकली / कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 28.02.2022

Panchkula: MAL-1652, 1791, MHP-357, MUL-2214, 2327, 2953, 3241, 3920, 4324, 4484, 4653, 4742, 4851, 4949, 4979, 5004 5008, 5012, 5019, 5042, 5043, 5049, 5052, 5064, 5065, 5081, 5082, 5086, 5088, 5108, 5121, 5128, 5132, 5137, 5138, 5156, 5170 5171, 5174, 5179, 5180, 5206, 5210, 5217, 5218, 5229, 5235, 5249, 5252, 5256, 5262, 5268, 5281, 5283, 5293, 5299, 5306, 5310, 5312, 5319, 5322, 5328, 5330, 5332, 5342, 5347, 5349, 5363, 5365, Panchkula-Sector-20: MAL-1845, MUL-4584, 5167, 5392 6185, 6351, 6675, 6685, 6757, 6772, 6796, 6802, 6806, 6807, 6811, 6816, 6836, 6842, 6847, 6848, 6855, 6859, 6861, 6864, 6866 6886, 6890, 6893, 6897, 6898, 6900, 6905, 6909, 6910, 6911, 6915, 6918, 6919, 6936, 6937, 6942, 6944, 6947, 6952, 6954, 6957 6960, 6965, 6969, 6976, 6984, 6988, 6991, 6997, 7003, 7009, 7010, 7028, 7035, 7048, 7049, 7052, 7055, 7066, 7067, 7068, 7069 '072, 7078, 7079, 7092, 7099, 7102, 7103, 7121, 7129, 7130, 7131, 7141, 7142, 7146, 7154, 7156, 7179, 7195, 7196, 7202, 7203 7204, 7218, 7222, 7223, 7226, 7234, 7239, 7240, 7242, 7252, 7253, 7260, 7266, Pinjore-(HA): MAL-2127, 2136, 2137, 2153, 2214 2234, 2242, 2250, 2253, MDL-165, MUL-4365, 5188, 6274, 6351, 6359, 6412, 6438, 6445, 6453, 6455, 6457, 6459, 6468, 6469 6490, 6499, 6506, 6507, 6511, 6516, 6519, 6520, 6522, 6524, 6546, 6550, 6552, 6554, 6561, 6565, 6566, 6576, 6581, 6591, 6594 6613 6615 6616 6620 6627 6628 6639 6640 6642 6644 6647 6650 6653 6657 6659 6660 6663 6667 6670 6674 6684 6688 6689, 6690, 6691, 6693, 6694, 6698, 6700, 6707, 6717, 6722, 6724, 6725, 6728, 6736, 6740, 6743, 6757, 6762, 6766, 6767, 6771, 6774, 6804, 6805, 6807, 6810, 6814, 6818, 6826, 6838, 6842, 6844, 6853, 6856, 6857, 6858, 6866, 6867, 6868, 6880, 6883, 6893, 6898, 6899 6904, 6905, 6911, 6913, 6914, 6915, 6916, 6924, 6925, 6947, 6948, 6949, 6952, 6954, 6958, 6959, 6960, 6961, 6963, 6974, 6981, 6983 6985, 6987, Kalka-(HA): MAL-2219, 2288, 2346, 2396, 2415, 2434, MUL-3754, 4687, 4890, 5715, 5716, 5736, 5804, 5913, 6045, 6053, 6065, 6068, 6073, 6084, 6099, 6101, 6110, 6111, 6112, 6119, 6121, 6123, 6142, 6146, 6150, 6151, 6159, 6167, 6171, 6173, 6177, 6190 6196, 6200, 6206, 6207, 6225, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6233, 6234, 6246, 6253, 6261, 6266, 6275, 6285, 6286, 6291, 6292, 6300 6303, 6304, 6317, 6318, 6319, 6324, 6329, 6341, 6345, 6346, 6350, 6357, 6358, 6370, 6371, 6372, 6374, 6376, 6377, 6381, 6387, 6389, 6377, 63896391, 6392, 6393, 6399, 6400, 6401, 6416, 6423, 6432, 6434, 6435, 6439, 6446, 6447, 6448, 6450, 6452, 6453, 6465, 6472, 6474, 6475 6476, 6477, 6479, 6485, 6486, 6496, 6503, 6504, 6507, 6513, Panchkula-Sec-12-(HA): MUL-2125, 2313, 2830, 3535, 3540, 3541, 3545 3553, 3556, 3565, 3577, 3587, 3590, 3591, 3606, 3618, 3629, 3640, 3646, 3662, 3667, 3673, 3680, 3684, 3688, 3706, 3707, 3717, 3732 3736, 3739, 3747, 3749, 3750, 3754, 3757, 3761, 3762, 3766, 3768, 3769, 3770, 3772, 3774, 3786, 3787, 3789, 3795, 3798, 3799, 3811 3812, 3816, 3831, Panchkula-Sec-14-(HA): MAL-1392, 1409, 1421, 1423, 1435, MUL-3098, 5310, 5326, 5331, 5340, 5341, 5342, 5354 5373, 5379, 5384, 5387, 5389, 5394, 5404, 5407, 5408, 5412, 5414, 5415, 5425, 5440, 5446, 5471, 5473, 5474, 5477, 5485, 5488, 5493 5494, 5499, 5502, 5503, 5508, 5510, 5521, 5523, 5527, 5530, 5532, 5537, 5540, 5541, 5542, 5548, 5559, 5567, 5571, 5578, 5584, 5585 5586, 5592, 5593, 5600, 5602, 5605, 5610, 5621, 5630, 5639, 5644, 5645, 5658, 5659, 5670, 5672, 5673, 5676, 5685, 5686, 5690, 5691 5694 5706 5711 5721 5723 5724

नकली & कम शद्धता: Piniore-(HA): MUL-6666, Panchkula-Sec-12-(HA): MUL-3474

में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

द्वितिय नीलामी की तिथि: 02.03.2022, Auction Centre: First Floor, S.C.O.-333, Sector-9, Panchkula, Haryana-134109 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी र्स्थिति मेंजहा इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली – 110024 **नोट**: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

डीलशेयर ने जुटाए 4.5 करोड़ डॉलर

पोषण दौर के तहत अबु धाबी वृद्धि और ग्राहक आधार में पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अकाउंट एक्जीक्यटिव भी बन गए हैं।' दिसंबर 2021 के अंत तक कंपनी के कुल कर्मियों की संख्या 324,700 थी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी इस साल भारत में अपने उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है और इनमें से कई अब इस साल भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स. स्मार्ट फैक्टरी. इंटेलीजेंट सप्लाई चेन

एज्जात ने कहा, 'भारत में यह कंपनी के लिए नवाचार और वृद्धि के लिए भी एक बड़ा केंद्र है। ग्राहकों के लिए डिलिवरी के संदर्भ में हमारी भारतीय टीमें जो कार्य कर रही हैं, वह वैल्यू निर्माण के लिहाज से आकर्षक

है। हमने कंपनी में भारतीय अधिकारियों की संख्या बढाई है और भविष्य में वे शायद कैपजेमिनाई में शायद ज्यादा भारतीय वरिष्ठ अधिकारी होंगे।' उन्होंने प्रतिभाओं को खास

तरीके से जोडे रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी टीम को बताया है कि उनकी अगली सबसे अच्छी नियक्ति ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने हाल में इस्तीफा दिया है। क्योंकि यह ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पास डिलिवरी के संदर्भ में फिर से नई जिम्मेदारी या रोजगार पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है, लेकिन से जुड़ना चाहता है। हमने 6 महीने या एक साल बाद इन कुछ लोगों को फिर से वापस लाने के लिए पहलें शुरू की हैं और, हम इस लक्ष्य को लेकर कुछ पहलों के साथ काफी हद तक सफल भी रहे हैं।'

जेआईएसपीएल सहायक इकाई को हस्तांतरित करेगी रायपुर संयंत्र

ईशिता आयान दत्त

कोलकाता, 17 फरवरी

जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्टस यानी जेआईएसपीएल (पूर्व में मोनेट इस्पात ऐंड एनर्जी) ने रायपुर के अपने विनिर्माण संयंत्र को स्लम्प सेल के जरिये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मिवान स्टील्स (एमएसएल) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। कंपनी का कहना है कि हितधारकों के लिए मूल्य को बढ़ाने और आंतरिक मूल्य को अनलॉक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

बुधवार को हुई बैठक में बोर्ड ने एमएसएल की 100 फीसदी शेयर पूंजी के हस्तांतरण के जरिये एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई बनाने और उसे रायपुर विनिर्माण संयंत्र हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि यह प्रस्ताव स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयरधारकों, कंपनियों के लेनदारों और नैशनल ट्रिब्यूनल लॉ (एनसीएलटी) की मंजूरियों पर निर्भर करेगा।

एऑन कैपिटल के साथ संयुक्त उद्यम जेआईएसपीएल में जेएसडब्ल्यू स्टील की 23.1 फीसदी हिस्सेदारी है। एमएसएल द्वारा ऋण एवं नकदी के जरिये

भुगतान की जाने वाली कुल रकम 443.11 करोड़ रुपये होगी।

जेआईएसपीएल अधिग्रहण 2018 में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत एक सौदे के जरिये किया गया था। इससे उसके वित्तीय लेनदारों को 11,015 करोड़ रुपये के दावे के एवज में 2,892 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। एऑन जेएसडब्ल्यू कंसोर्टियम इस परिसंपत्ति के लिए एकमात्र बोलीदाता था।

जेआईएसपीएल के पास रायगढ़ और रायपुर में विनिर्माण संयंत्र हैं। रायपुर संयंत्र में 0.3 एमटीपीए क्षमता की एक स्पॉन्ज आयरन विनिर्माण इकाई, एक फेरो अलॉय इकाई और 0.25 एमटीपीए क्षमता की एक इस्पात विनिर्माण इकाई शामिल हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह इकाई अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्पादन के साथ ढांचागत एवं निर्माण क्षेत्र के लिए कमोडिटी ग्रेड के उत्पादों का विनिर्माण करती है। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह इकाई अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास मुख्य तौर पर सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि रायगढ में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उत्पादन के साथ विशेष इस्पात उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

देश में डेटा भंडारण पर कंपनियों में मतभेद

पृष्ठ 1 का शेष...

मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि वैश्विक कंपनियों ने इस कदम का विरोध किया है। एक ऑनलाइन सर्च इंजन कंपनी ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (इक्रियर) और कट्स इंटरनैशनल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अनुसंधानों में भी यह बात सामने आई है कि सीमा पार डेटा प्रवाह से वास्तविक सामाजिक-आर्थिक लाभ होते हैं। उसका कहना है कि डेटा के प्रवाह से विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेष और स्टार्टअप

रिलांयस और पेटीएम दोनों ने इस

को बढावा मिलेगा वैश्विक कंपनियों ने यह भी तर्क दिया है कि इस कदम के सामाजिक-आर्थिक नतीजे सामने आएंगे और इसका द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। इस चर्चा में हिस्सा लेने वाली एक वैश्विक कंपनी के वरिष्ठ कार्याधिकारी ने कहा, 'इसे अभी परिभाषित नहीं किया गया है कि अहम निजी डेटा क्या है, जिसे भारत में भंडारित किया जाना चाहिए। अहम निजी डेटा पर परिभाषा इतनी व्यापक है कि एक अपलोडेड फोटो भी इसके दायरे में आ सकती है।' कुछ लोग बीच के रास्ते का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि संवेदनशील सूचनाओं को भारत में भंडारित किया जाना चाहिए और अन्य डेटा के स्थानांतरण को मंजूरी दी जानी चाहिए। एक मीडिया कंपनी ने कहा कि अगर ऐसे प्रतिबंध सार्क देशों में लागू किए गए तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।

हालांकि आईएएमएआई ने अपने पहले राय दी थी कि विधेयक में स्थानीय स्तर पर डेटा भंडारित करने की शर्तें शामिल नहीं की जाएं और इसने आपराधिक जुर्मानों को हटाने की मांग की थी। एसोसिएशन ने जेपीसी द्वारा विधेयक में गैर निजी आंकडे शामिल करने पर आपत्ति जताई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गैर निजी डेटा नियंत्रण पर ढांचा विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसा नहीं किए जाने की सिफारिश की थी।

अन्य भागीदारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहीं घरेलू कंपनियों पर सवाल उठाए हैं। एक प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनी के सीईओ ने कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार से जुड़ा मुद्दा है। इसके लिए निजी कंपनियों से कहना अनुचित है।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं-22 व 49 ग्राउंड फ्लोर, फेज़-॥, इंडस्टियल एरिया, पंचकला-१३४११५, हरियाणा से मुद्रित एवं एससीओ ८६१, एनएर्स मनी माजरा.चंडीगढ-१६०१०१ से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं1 टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबरिक्रप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्य बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 या ५७७७५ पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम रे बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न् हो सकते हैं। सुमाचार पत्र में प्रकाशित् रिपोर्ट्रों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टेंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सदभाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके पत्र जाता है। विश्वास स्टिडर के हमा विद्यापन सिद्देनाचे ने स्वायन है। विद्यापनों र साथ बिजनेस स्टेंडर्ड ने तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विद्यापनों र संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विद्यापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मैं। बिज़नेस स्टेंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। बिज़नेस स्टेंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर् सुमाचार पुत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी पहल अपगरान था प्रसारण ानाषद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनिधकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं



कृते वीनस रेमेडीज़ लिमिटेड


हस्ता/-

शेयर सर्टिफिकेट के खो जाने की सचना एतदूद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट के खो जाने /गलत जगह पर रख दिए जाने की रिपोर्ट की गई है एवं पंजीकृत धारकों/दावेदारों ने इसलिए खो गए शेयर सर्टिफिकेट के बदले डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध कंपनी से किया है:

	नगाए। ना	शयरधारका क नाम	MICHANG	राजरा	ाजार	10 /11	
ı	नं.	(14/41/41/41/41/11/11/11/11/11/11/11/11/1	नं.	की सं.	से	तक	
l	0014924	नीलुकंठ काशीनाथ नागरकर	28694	100	5007801-	- 5007900	
ı		नमिता नीलकंठ नागरकर					
l	किसी भी व्यक्ति(यों) जिसे/जिन्हें उपर्यक्त शेयर सर्टिफिकेट के संबंध में कोई दावा है, इस						
	प्रकाशन से 15 दिनों के अंदर निम्नलिखित पते पर हमारे पास लिखित रूप में दावा दर्ज कर						
	सकते हैं। इसके पश्चात उपर्युक्त शेयर सर्टिफिकेट के संबंध में कोई दावा स्वीकार करने के						
ı	लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होंगी एवं कंपनी (शेयर कैपिटल और डिबेंचर) नियम 2014 के						

नियम 6 के अनुसरण में, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

(कंपनी सचिव) वीनस रेमेडीज़ लिमिटेड आर.ओ. : एससीओ 857, सी. नं.10, दूसरी मंज़िल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़–160101 कॉर्पोरेट कार्यालयः 51–52, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-। पंचकुला–134113 (हरियाणा) संपर्क नं. 0172-2933090,94, ईमेल - complianceofficer@venusremedies.com सीआईएन: L24232CH1989PLC009705



Grow your business with Business Standard the smart choice to reach those who matter!

71% readers in NCCS A1 and A2

1000+ towns

12 English, 6 Hindi editions:

6 lakh registered users, 12 million unique visitors per month

Print readers spend >15 min per day, digital >5 min per visit

The most-read business medium in top B-Schools

150+ events every year

Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

Business Standard Insight Out

osindia 💟 bsindia

Government of Jharkhand Rural Works Department (Rural works Affairs) JHARKHAND STATE RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY (JSRRDA) 3rd Floor, F.F.P. Building, Dhurwa, Ranchi 834004

VERY SHORT NOTICE INVITING TENDER

(National Competitive Bidding Through e-Procurement) (eTender) eTender No.- 08 /2021-

Dated: The undersigned on behalf of Government of Jharkhand invites item rate bids through e-Procurement from the ligible bidders registered* in appropriate class with any State/Central Government/State /Central Gover Organization for construction and maintenance for five years of the following works of Pradhan Mantri Gram

Sadak Yojna, Phase –XIV (2016-17) of PMGSY-I. The bid should be submitted online in the website **pmgsytendersjhr.gov.in**. The bidders should have valid Digital Signature Certificate for online submission of bid Phase-XIV(Batch-III) (2016-17)

S1. No.	District Name	Division /Block	Package No.	Road Name	Bridge Length (M)	Cost of Const. and Maint. With GST (in Lakh)	Earnest Money (in Lakh)	Time Period
1.	West Singhbhum	Chakradhar-pur (Goelkera)	JH-22-BR- WSM-01	Const. and Maint. of 1. Bridge over Local Nala at Ch.17.50KM (L039 - Sarbil to Putung (VR168) (L- 34.24 M) 2. Bridge over Local Nala at Ch.16.10KM (L039 - Sarbil to Putung (VR168) (L- 26.24M) and 3. Bridge over Local Nala at Ch.16.85 KM (L039 - Sarbil to Putung Road) (L-34.24 M)	94.72	304.98	3.05	6 Months
2.	West Singhbhum	Chakradhar-pur (Goelkera)	JH22EG26B1	Bridge over Local Nala at Ch. 2.40 KM (L057-Posaita to Baliya Leventa (VR187)	89.44	187.00	1.87	6 Months
ROAD								
3.	West Singhbhum	Chakradhar-pur (Goelkera)	JH22NPC181	Remaining work of L054- Badgua to Rowan Simana (VR183)	10.67 KM	587.10	5.90	6 Months
4.	West Singhbhum	Chakradhar-pur (Tonto)	JH22NPC181	Remaining work of T01 (MALPI) to TAMBAHAKA	8.34 KM	402.68	4.03	6 Months
	Date of opening of tenders are as given below:-							

Date of opening	ng of tenders are a	as given below	':-				
Procurement	Place of	Availability	of tender on-	Seeking	Hard Copy	Date & time	of opening
Officer	Opening	line for	bidding	Clarification	Submission	of ter	ıder
		From	То			Technical	Financial
						bid	bid
1	2	3	4			6	7
Chief Engineer,	Chief Engineer,	14.02.2022	24.02.2022			25.02.2022	To be
JSRRDA, Ranchi	JSRRDA,	upto 10.30	upto 5.00	24.02.2022	25.02.2022	at 5.00 PM	informed
	Ranchi	AM	PM	upto 2.00 PM	upto 3.00 PM	at 5.00 FM	later

All other details can be seen in the bidding documents which are available at website pmgsytenders jhr.gov.in

^t Non-registered bidders may also submit bid. however the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authority before signing the contract. Note:

Amount of Bid Security should be taken as mentioned in the Bid Data Sheet of the Bidding Document. Cost of Bid Document (Rs. 10000) and Bid Security (as mentioned in the Bid Data Sheet) shall be deposited in form as mentioned in Bid Data Sheet failing which the bid will be treated non responsive and action shall be

taken as per Sec. 2 of ITB clause 12.2 (d). 3. In case, it is found, even after the award of work that the bidder has submitted/uploaded any

false/erroneous/fraudulent statement/document, he/she is liable for blacklisting and forfeiture of Bid Bidders must submit GST registration certificate without which bid is liable to be rejected.

Bidders whose names appear in the Debar/blacklist of RWD, any department of GoJ/GoI (including JSRRDA) shall not be allowed to participate in the above bids.

Bids submitted by bidders, who have long pending ATR(s) / made inordinate delay in execution of earlier allotted construction/maintenance works of PMGSY, may be rejected summarily.

In case of any discrepancy/dispute about units in BOQ, units as mentioned in Current SOR on which BOQ has been prepared shall prevail. Participating bidders are free to submit grievances, if any, against the decision of technical evaluation within

five working days from the date of uploading of decision of technical evaluation only through email at jhce@pmgsy.nic.in. Grievance submitted after stipulated period shall not be considered.

Bidders must have valid registration with Employee Provident Fund organization under EPF and Miscellaneous Provisions Act 1952 failing which the bid shall be rejected.

Bidders must not quote rate for routine maintenance. The amount for routine maintenance as indicated in the Bill of Quantities must be acceptable to bidders.

All other details can be seen in the bidding document which is available in website pmgsytendersjhr.gov.in

Chief Engineer

as per schedule mentioned above. PR 264157 Rural Work Department (21-22) D JSRRDA, Ranchi

नेनीताल _{बैंक} दि नैनीताल बैंक लि.

Business Standard

CHANDIGARH EDITION

Printed and Published by Nandan Singh

Rawat on behalf of Business Standard

Private Limited and printed at Impressions

Printing & Packaging Limited, Plot No. 22 &

49 GF, Industrial Area, Phase - 2,

Panchkula - 134115, Harvana, and

published at SCO 861, NAC Mani Majra,

Chandigarh - 160101

Editor: Shailesh Dobhal

RNI NO: CHAENG/2006/17801

Readers should write their feedback at

feedback@bsmail.in Telefax: 0172-5035311, Fax:+91-11-23720201

For Subscription and Circulation

enquiries please contact: Ms. Mansi Singh

Head-Customer Relations

Business Standard Private Limited.

Birla Centurion, P.B.Marg, Worli,

Mumbai - 400013

E-mail: subs_bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575

DISCLAIMER News reports and feat

articles in Business Standard seek to pre

an unbiased picture of developments in he

markets, the corporate world and

government. Actual developments can

out to be different owing to circumsta

beyond Business Standard's control

knowledge. Business Standard does not t

reports and articles published in

Business Standard does not associate it with or stand by the contents of any of he

own judgement

advertisers concerned.

criminal liabilities

any responsibility for investment or busines.

decisions taken by readers on the basis of

newspaper. Readers are expected to form teri

advertisements accepted in good faith hd

published by it. Any claim related to he advertisements should be directed to the

Unless explicitly stated otherwise, all rights

reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd.

Any printing, publication, reproduction,

transmission or redissemination of the

contents, in any form or by any means, is

prohibited without the prior written consent of

M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any

person/legal entity shall invite civil and

No Air Surcharge

H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, O

NAINITAL BANK THE NAINITAL BANK LTD.

(Regd. Office: G.B. Pant Road, Nainital) (Head Office : Seven Oaks, Mallital, Nainital, Pin 263001, Uttarakhand)

INVITES APPLICATION FOR EMPANELMENT OF RESOLUTION / RECOVERY AGENTS

Offers are invited from persons/parties/establishments, for empanelment as Resolution/Recovery Agents for assisting the Bank for recovery of impaired loans in Meerut, Roorkee, Lucknow, Bareilly, Haldwani, Dehradun and Delhi area through enforcement of its rights on the assets charged to the Bank under SARFAESI Act, 2002. The persons/parties/establishments which are in existing panel of other Bank's as Resolution/Recovery agents should also submit their offer in response to this advertisement. For Further details, refer to Banks website www.nainitalbank.co.in/english/tender.aspx

Place : Nainital Date : 18.02.2022 CHIEF OPERATING OFFICER



NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported to be lost/ misplace and the registered holders/claimants therefore have requested the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s):

Folio No.	Name of Shareholders	Certificate No.	No. of Shares		ive Nos. To
	NILKANTH KASHINATH NAGARKAR NAMITA NILKANTH NAGARKAR	28694	100	5007801-	5007900

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s) should lodge the claim in writing with us at the following address within 15 days from the publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rule

For Venus Remedies Limited Place: Chandigarh Date: 17.02.2022 (Company Secretary)

VENUS REMEDIES LIMITED R.O.: SCO 857, C. No.10, 2nd Floor, NAC, Manimaira, Chandigarh-160101.

Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-I Panchkula-134113 (Haryana) Contact No. 0172-2933090,94, Email- complianceofficer@venusremedies.com CIN: L24232CH1989PLC009705

SGN TELECOMS LIMITED Regd. Office: E 58 PHASE VIIIELTOP SAS NACAR MOHALI Rupnagar PB CIN: L64200PB1986PLC006807 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2021

			Rs. Lacs
Particulars	Quarter Ended	Twelve months ended	Quarter Ended/nine month)
	31.12.2021 uaudited	31.03.2021 audited	31.12.2021 uaudited
Total income from operations (net)	-5.589	-8.893	-13.149
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	-5.589	-8.893	-13.149
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	-5.589	-8.893	-13.149
Equity Share Capital	808.099	808.099	808.099
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) *	-656.409	-650.820	-663.969
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.1/- each)			
Basic (Rs.):	-0.812	-0.805	-0.822
Diluted (Rs.) :	-0.812	-0.805	-0.822
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.1/- each)			
Basic (Rs.):	-0.812	-0.805	-0.822
Diluted (Rs.):	-0.812	-0.805	-0.822

Note: 1.The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites

2. The above financial results were reveiwed by Audit committee and approved by Board of directors ere meetings held on 14.02.2022

For and on behalf of SGN Telecoms Limited PLACE: Mohali (Surinder Singh) Managing Director DIN: 00030011 DATED:14.02.2022

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED Reg.Off.: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-60000

SHRIR 🍙 M | Branch Office: Sco.13, 4th Floor, Shangahi Tower, Feroze

ousing finance | Gandhi Market, Ludhiana, Punjab – 141001. Website: www.shriramhousing.in **POSSESSION NOTICE**

Whereas The undersigned being the authorised officer of Shriram Housing

Finance Limited (SHFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with [Rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of SHEL has taken the Symbolic Possession of the mortgaged property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 16th day of Feb of the year 2022.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the SHRIRAM HOUSING FINANCE LTD, for an amount mentioned in

the table below and interest	thereon.	
Borrower Name and address	Amount due as per Demand Notice	Description of Property
1) Mrs. Sunita Yadav	Rs.09,32,133/-	All that piece and parcel of
W/o Sampat Yadav	(Rupees Nine	one residential house /
	Lakhs Thirty Two	property/ Plot bearing Plot
2) Mr. Sampat Yadav	Thousand One	No.44, measuring 98
S/o Ram Dawar Yadav	Hundred and Thirty	Sq.Yds, comprised in Khasra
	Three Only) DUE	No.1297/1170,1299/1171,
Both R/o H.No-80,	AND PAYABLE AS	1303/1172,1309/1178
Phase-6, Near Water	ON 16-Dec-2021	situated at village Akalgarh,
Tank, Aman Park,	UNDER LOAN	Locality known as East Villa
Village-Threekay, Tehsil	ACCOUNT NO	Near Don Bosco Public
•	SHLHLUDN00001	School, Pakhowal Road
& Distt - Ludhiana,	45.	Tehsil- and Distt Ludhiana.
Punjab -142021.	DEMAND NOTICE	142002.
AND	DATED:	BOUNDED AS PER SALE
Plot No – 44, East villa	18-12-2021.	DEED:
Colony, Village – Lalton		NORTH: PLOT NO 43 ADM
Khurd (Akalgarh), Near		36'9"

142002. WEST: NEIGHBOUR ADM 24' The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Place: Ludhiana (Puniab) Sd/- Authorised Office Date: 16.02.2022 Shriram Housing Finance Limited

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.

Ludhiana Branch: 2nd Floor, Online'S Greenwood Plaza, 387, Miller Ganj, Gill Road, Ludhiana - 141001,(PB).

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 o the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of

HPL for an amount as mentioned nerein under with interest thereon.				
Name of the Borrower(s)/ Co Borrower(s) (Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession	
(App No. 00096738 & 00223475 / Ludhiana Branch) Pappu Raj (Borrower) Rashmi Devi (Co-Borrower) Sanjeev Kumar, Prabhu Patel (Guarantors)	All the part & parcel of property bearing, Village Jagirpur, Gujjar Colony (Krishana Colony) Nr. Model Colony Rahon Road, Ludhiana Punjab 141007, Boundaries : East: Street 10 Feet Wide Side 11 Feet, West: Neighbour Side 23 Feet, North: Lucky Side 20 Feet, South: Jaswant Singh Harmadas Side 21+5+14 Feet	15-11-2021 & ₹ 8,61,918/- &	12-02-2022	

Place : Ludhiana

Date : 18.02.2022

Authorised Officer Aadhar Housing Finance Limited

POONAWALLA FINCORP

POONAWALLA FINCORP LIMITED (FORMERLY, MAGMA FINCORP LIMITED).) **UNDER SECTION 13(2) OF** CORP. OFF:601, 6th FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. No. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE 411036 REGD. OFF: DEVELOPMENT HOUSE, 24 PARKSTREET KOLKATTA 700016 THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned Borrowers/ Co-borrowers / Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility (ies) by mortgaging your Immovable property/ies from Magma Fincorp Ltd "MFL" now renamed as Poonawalla Fincorp Ltd "PFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being

published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you. Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and

data of the Berrowers, do berrowers, dual article, decaration, decaration, decarating Bues, Bernaria Hotice sent and of decaret 10(2) and							
mount claimed there under are given as under							
R. O.	NAME OF THE BORROWER, CO-BORROWER, GUARANTOR AND LOAN AMOUNT	DETAILS OF THE SECURED ASSET	DEMAND NOTICE DATE	AMOUNT DUE IN RS.			
	MOHIT MEHTA, M S GLOBAL TREND, M S SAI TELECOM, SHAILJA LOAN AMOUNT: RS.2500000/- (RUPEES TWENTY FIVE LAKH ONLY) LOAN NO: HL/0035/H/13/000078	MORTGAGE PROPERTY OF HOUSE HAVING PART OF M.C. PROPERTY		RS. 26,08,736/- (RUPEES TWENTY SIX LAKH EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY SIX ONLY) TOGETHER WITH FURTHER INTEREST P.A			

You the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall b constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwis vithout our consent.

FOR POONAWALLA FINCORP LIMITED FORMERLY KNOWN ASMAGMA FINCORP LTD) AUTHORIZED OFFICE PLACE: HISSAR ,HARYANA DATE: 18.02.2022

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that our client, M/s, Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi-682018, Kerala, India, CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph.: +91 484-2396478 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 31.01.2021 & Spurious/Low quality accounts for the period up to 30.06.2021), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.

First Auction Date: 28.02.2022

Panchkula: MAL-1652, 1791, MHP-357, MUL-2214, 2327, 2953, 3241, 3920, 4324, 4484, 4653, 4742, 4851, 4949, 4979, 5004 5008, 5012, 5019, 5042, 5043, 5049, 5052, 5064, 5065, 5081, 5082, 5086, 5088, 5108, 5121, 5128, 5132, 5137, 5138, 5156, 5170, 5171, 5174, 5179, 5180, 5206, 5210, 5217, 5218, 5229, 5235, 5249, 5252, 5256, 5262, 5268, 5281, 5283, 5293, 5299, 5306, 5310 5312, 5319, 5322, 5328, 5330, 5332, 5342, 5347, 5349, 5363, 5365, Panchkula-Sector-20: MAL-1845, MUL-4584, 5167, 5392 6185, 6351, 6675, 6685, 6757, 6772, 6796, 6802, 6806, 6807, 6811, 6816, 6836, 6842, 6847, 6848, 6855, 6859, 6861, 6864, 6866 6886, 6890, 6893, 6897, 6898, 6900, 6905, 6909, 6910, 6911, 6915, 6918, 6919, 6936, 6937, 6942, 6944, 6947, 6952, 6954, 6957, 69596960, 6965, 6969, 6976, 6984, 6988, 6991, 6997, 7003, 7009, 7010, 7028, 7035, 7048, 7049, 7052, 7055, 7066, 7067, 7068, 7069, 7072, 7078, 7079, 7092, 7099, 7102, 7103, 7121, 7129, 7130, 7131, 7141, 7142, 7146, 7154, 7156, 7179, 7195, 7196, 7202, 7203 7204, 7218, 7222, 7223, 7226, 7234, 7239, 7240, 7242, 7252, 7253, 7260, 7266, Pinjore-(HA): MAL-2127, 2136, 2137, 2153, 2214 2234, 2242, 2250, 2253, MDL-165, MUL-4365, 5188, 6274, 6351, 6359, 6412, 6438, 6445, 6453, 6455, 6457, 6459, 6468, 6469 $6490,\,6499,\,6506,\,6507,\,6511,\,6516,\,6519,\,6520,\,6522,\,6524,\,6546,\,6550,\,6552,\,6554,\,6561,\,6565,\,6566,\,6576,\,6581,\,6591,\,6594,\,6591$ 6613, 6615, 6616, 6620, 6627, 6628, 6639, 6640, 6642, 6644, 6647, 6650, 6653, 6657, 6659, 6660, 6663, 6667, 6670, 6674, 6684 6688, 6689, 6690, 6691, 6693, 6694, 6698, 6700, 6707, 6717, 6722, 6724, 6725, 6728, 6736, 6740, 6743, 6757, 6762, 6766, 6767 6771, 6774, 6804, 6805, 6807, 6810, 6814, 6818, 6826, 6838, 6842, 6844, 6853, 6856, 6857, 6858, 6866, 6867, 6868, 6880, 6883 6893, 6898, 6899, 6904, 6905, 6911, 6913, 6914, 6915, 6916, 6924, 6925, 6947, 6948, 6949, 6952, 6954, 6958, 6959, 6960, 6961 6963, 6974, 6981, 6983, 6985, 6987, Kalka-(HA): MAL-2219, 2288, 2346, 2396, 2415, 2434, MUL-3754, 4687, 4890, 5715, 5716 5736, 5804, 5913, 6045, 6053, 6065, 6068, 6073, 6084, 6099, 6101, 6110, 6111, 6112, 6119, 6121, 6123, 6142, 6146, 6150, 6151, 6159, 6167, 6171, 6173, 6177, 6190, 6196, 6200, 6206, 6207, 6225, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6233, 6234, 6246, 6253, 6261 6266, 6275, 6285, 6286, 6291, 6292, 6300, 6303, 6304, 6317, 6318, 6319, 6324, 6329, 6341, 6345, 6346, 6350, 6357, 6358, 6370 6371, 6372, 6374, 6376, 6377, 6381, 6387, 6389, 6391, 6392, 6393, 6399, 6400, 6401, 6416, 6423, 6432, 6434, 6435, 6439, 6446 6447, 6448, 6450, 6452, 6453, 6465, 6472, 6474, 6475, 6476, 6477, 6479, 6485, 6486, 6496, 6503, 6504, 6507, 6513 Panchkula-Sec-12-(HA): MUL-2125, 2313, 2830, 3535, 3540, 3541, 3545, 3553, 3556, 3565, 3577, 3587, 3590, 3591, 3606, 3618, 3629, 3640, 3646, 3662, 3667, 3673, 3680, 3684, 3688, 3706, 3707, 3717, 3732, 3736, 3739, 3747, 3749, 3750, 3754, 3757, 3761, 3762, 3766, 3768, 3769, 3770, 3772, 3774, 3786, 3787, 3789, 3795, 3798, 3799, 3811, 3812, 3816, 3831, Panchkula-Sec-14-(HA): MAL-1392, 1409, 1421, 1423, 1435, MUL-3098, 5310, 5326, 5331, 5340, 5341, 5342, 5354, 5373, 5379, 5384, 5387, 5389, 5394 5404, 5407, 5408, 5412, 5414, 5415, 5425, 5440, 5446, 5471, 5473, 5474, 5477, 5485, 5488, 5493, 5494, 5499, 5502, 5503, 5508 5510, 5521, 5523, 5527, 5530, 5532, 5537, 5540, 5541, 5542, 5548, 5559, 5567, 5571, 5578, 5584, 5585, 5586, 5592, 5593, 5600 5602, 5605, 5610, 5621, 5630, 5639, 5644, 5645, 5658, 5659, 5670, 5672, 5673, 5676, 5685, 5686, 5690, 5691, 5694, 5706, 5711

Spurious & Low Quality: Pinjore-(HA): MUL-6666, Panchkula-Sec-12-(HA): MUL-3474

Second Auction Date: 02.03.2022, Auction Centre: First Floor, S.C.O.-333, Sector-9, Panchkula, Harvana-134109 The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches.

However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on Second Auction date at given auction centre, and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED [Corporate Identity Number: L74899DL1993PLC053579]

| Corporate Identity Number: L/4899DL1993PLC053579|
| SYSTEMS | Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019 Corporate Office: C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India - 201 307 Tel: +91 120 4303500

Website : www.rsystems.com; Email : rsil@rsystems.com **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

For Transfer of equity shares to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority In terms of Requirements of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting,

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), the Company is mandated to transfer such shares in respect of which the dividend has remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years to the Demat account ("IEPF Account") as opened by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"). It is noticed from the records that certain shareholders of the Company have not encashed their dividends for seven consecutive years since

the declaration of First Interim Dividend 2015 for the financial year ended December 31, 2015 and onwards.

In compliance with the said Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the unclaimed dividend amount(s). A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account, is available on the website of the Company at https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-

The Shareholders are requested to refer to the above web-link to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Fund/ IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure as prescribed in Rules.

In case of non-receipt of valid claim by the shareholder for the First Interim Dividend 2015 by May 23, 2022 at any one of the below mentioned addresses, the Company shall, in compliance with the requirement of the Rules, transfer the said shares to IEPF account without any further

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules


In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Registrar and Transfer Agent/ Company at the following

Link Intime India Pvt. Ltd. R Systems International Limited Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1, Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Tel: +91 11 4141 0592, Fax: +91 11 4141 0591

C-40, Sector-59, NOIDA-201307 Tel:+91-120-4303500 Email: investors@rsystems.com

For R Systems International Limited

Bhasker Dubey (Company Secretary & Compliance Officer)



Don Bosco Public

Ludhiana, Puniab -

Tehsil & Distt -

School, Pakhowal Road,



241



SOUTH: PLOT NO 45 ADM

EAST: ROAD 30' WIDE ADM













Email: delhi@linkintime.co.in











Date: 17.02.2022

Place: Noida. (U.P.)











